

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] दिल्ली, शनिवार, अगस्त 3, 2019/श्रावण 12, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 125  
No. 161] DELHI, SATURDAY, AUGUST 3, 2019/SHRAVANA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 125

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

एफ.सं. 36(84)/समन्वय/मंडलायुक्त/2019/1213.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-2/1/60-Jud1.II दिनांक 20 अप्रैल, 1960 के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम नं. 2 में दर्शाए गए अधिकारियों का कालम 3 में पदांकित जनगणना अधिकारियों के तौर पर तथा प्रत्येक के समक्ष कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनगणना 2021 के पूर्व परीक्षण (प्री-टेस्ट) के संचालन के पर्यवेक्षण हेतु सहर्ष जनगणना अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

## अनुसूची

क्रम. सं.	प्राधिकारी	जनगणना पदनाम	क्षेत्र
1.	आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	प्रधान जनगणना अधिकारी	ग्रामीण क्षेत्र में, गांव गोमन हेरा वार्ड नं. 40-एस के 10 गणना ब्लॉक तथा वार्ड नं. 12-एस के नगरीय क्षेत्र केशोपुर के 67 गणना ब्लॉक, जिन्हें दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व-परीक्षण (प्री-टेस्ट) हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है

2.	उपायुक्त, जिला पश्चिम तथा उपायुक्त, जिला दक्षिण पश्चिम, राजस्व विभाग, दिल्ली	जिला जनगणना अधिकारी	उनके सम्बंधित जिला अधिकार-क्षेत्र हेतु
3.	उपप्रधानाचार्य, राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोमन हेरा, ग्राम तथा पोस्ट-आफिस- गोमन हेरा, दिल्ली	चार्ज अधिकारी	गांव गोमन हेरा, वार्ड नं. 40-एस के 10गणना ब्लॉक
4.	उपप्रधानाचार्य, राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक-जी, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	चार्ज अधिकारी	नगरीय क्षेत्र के 67 गणना ब्लॉक, जिन्हें दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 12-एस के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व-परीक्षण (प्री-टेस्ट) हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है

2. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पैराग्राफ 1 में नामित प्राधिकारियों को, सहर्ष उनके सम्बंधित अधिकार-क्षेत्रों में जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार सौंपते हैं।

3. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पैराग्राफ 1 में नामित प्राधिकारियों को सहर्ष उनके सम्बंधित किसी अधिकार-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उनके द्वारा विधिवत रूप से जनगणना अधिकारी नियुक्त करने सम्बंधित लिखित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
राजीव वर्मा, प्रधान सचिव (राजस्व)

## OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER (REVENUE)

(COORDINATION BRANCH)

### NOTIFICATION

Delhi, the 2nd August, 2019

**F.No. 36 (84)/Coord./Div. Comm./2019/1213.**—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 4 of the Census Act 1948 (37 OF 1948) read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. 2/1/60-Judl.II dated the 20<sup>th</sup> April, 1960, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the authorities mentioned in column 2 of the Schedule given below, as Census Officers as designated in column 3 and within the areas specified against each in column 4 of the said schedule to take, or aid in, or supervise the taking of, the Pre-Test of 2021 Census Operations in the National Capital Territory of Delhi:-

### SCHEDULE

S. No.	Authority	Census Designation	Areas
1	2	3	4
1	Commissioner, South Delhi Municipal Corporation	Principal Census Officer	In Rural area 10 Enumeration Blocks of Village Gomen Hera ward No. 40-S and 67 Enumeration Blocks of urban area Kesho Pur of ward no. 12-S which have been specified for Pre-test under the jurisdiction of South Delhi Municipal Corporation

2	Deputy Commissioner West District and Deputy Commissioner South- West District	District Census Officers	For their respective district jurisdiction.
3	Vice Prinicipal, GBSSS , Gomen hera, Village & Post Office, Gomen hera , Delhi	Charge Officer	Village Gomen Hera, 10 Enumeration Blocks, of ward No. 40-S.
4	Vice Principal, GBSSS, Block-G, Vikaspuri, New Delhi-110018	Charge Officer	The 67 Enumeration Blocks of Urban areas which have been specified for pre-test under the jurisdiction of Ward no 12-S of South Delhi Municipal Corporation.

2. In exercise of the powers under sub-section (4) of the section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is further pleased to delegate to the authorities named in paragraph 1, the powers of appointing of Census Officer in respect of the areas within their respective jurisdictions.

3. In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor is also pleased to authorize the authorities named in paragraph 1 to sign a declaration in writing that any person has been duly appointed a Census Officer by him any area under their respective jurisdictions.

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
RAJEEV VERMA, Pr. Secy. (Revenue)